



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2020
कार्तिक 26, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश

संख्या 4 / 773-2020-4-94(मथुरा)-2014
लखनऊ, 17 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-418

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद मथुरा के विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/74-2014-4-94(मथुरा)-2014, दिनांक 12 जनवरी, 2015 में विकास खण्ड मथुरा एवं गोवर्धन की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्द्वारा स्थापित करती हूँ।

सारिणी

जनपद का नाम—मथुरा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	मथुरा	जैत	1 जैत	1	मथुरा	जैत	1 जैत
2	मथुरा	छटीकरा	1 छटीकरा	2	मथुरा	छटीकरा	1 छटीकरा
	मथुरा	“ ”	2 अल्हैपुर		मथुरा		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित
3	मथुरा	आटस बांगर	1 आटस बांगर		मथुरा		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित
	मथुरा	“ ”	2 आटस खादर		मथुरा		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित
4	मथुरा	जौनाई	1 जौनाई	3	मथुरा	जौनाई	1 जौनाई
5	मथुरा	तेहरा	1 तेहरा		मथुरा		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित
6	मथुरा	सुनरख बांगर	1 सुनरख बांगर		मथुरा		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित
	मथुरा	“ ”	2 सुनरख खादर		मथुरा		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित
7	मथुरा	वृन्दावन बांगर	1 वृन्दावन बांगर (न०पा० सीमा से बाहर)		मथुरा		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
	मथुरा	“ ”	2 वृन्दावन बांगर (न०पा० सीमा से बाहर)		मथुरा		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित
8	मथुरा	सकराया बांगर	1 सकराया बांगर	4	मथुरा	सकराया बांगर	1 सकराया बांगर
	मथुरा	“ ”	2 सकराया खादर		मथुरा	“ ”	2 सकराया खादर
	मथुरा	“ ”	3 मुहाल सकराया बांगर		मथुरा	“ ”	3 मुहाल सकराया बांगर
	मथुरा	“ ”	4 मुहाल सकराया खादर		मथुरा	“ ”	4 मुहाल सकराया खादर
9	मथुरा	राजपुर बांगर	1 राजपुर बांगर		मथुरा		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित
	मथुरा	“ ”	2 राजपुर खादर		मथुरा		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित
10	मथुरा	राजपुर नौबराबाद	1 राजपुर नौबराबाद		मथुरा		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित
11	मथुरा	वाटी	1 वाटी	5	मथुरा	वाटी	1 वाटी
12	मथुरा	बाजना	2 बाजना	6	मथुरा	बाजना	2 बाजना
13	मथुरा	फैंचरी	1 फैंचरी	7	मथुरा	फैंचरी	1 फैंचरी
14	मथुरा	मौरा	1 मौरा	8	मथुरा	मौरा	1 मौरा
15	मथुरा	सकना	1 सकना	9	मथुरा	सकना	1 सकना

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
16	मथुरा	कोटा	1 कोटा		मथुरा		उ0 प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2061/नौ-2-16-05(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पालिका परिषद मथुरा में समाहित
17	मथुरा	अरहेरा	1 अरहेरा	10	मथुरा	अरहेरा	1 अरहेरा
18	मथुरा	मुकन्दपुर	1 मुकन्दपुर		मथुरा		उ0 प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित
19	मथुरा	खामनी	1 खामनी	11	मथुरा	खामनी	1 खामनी
20	मथुरा	न0 काशी	1 न0 काशी	12	मथुरा	न0 काशी	1 न0 काशी
21	मथुरा	दतिया	1 दतिया	13	मथुरा	दतिया	1 दतिया
22	मथुरा	जचौंदा	1 जचौंदा	14	मथुरा	जचौंदा	1 जचौंदा
23	मथुरा	न0 बोहरा	1 न0 बोहरा	15	मथुरा	न0 बोहरा	1 न0 बोहरा
24	मथुरा	लाडपुर	1 लाडपुर	16	मथुरा	लाडपुर	1 लाडपुर
	मथुरा	" "	2 न0 मनीराम		मथुरा	" "	2 न0 मनीराम
	मथुरा		3 मदनपुरा बांगर एवं मदनपुरा खादर		मथुरा		उ0 प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 2274/नौ-7-2019-08(सीमा विस्तार)-2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में समाहित
25	मथुरा	बबूरी	1 बबूरी गर्बी	17	मथुरा	बबूरी	1 बबूरी गर्बी
	मथुरा	" "	2 बबूरी सर्की		मथुरा	" "	2 बबूरी सर्की
26	मथुरा	अगनपुरा	1 अगनपुरा	18	मथुरा	अगनपुरा	1 अगनपुरा
27	मथुरा	उस्फार	1 उस्फार	19	मथुरा	उस्फार	1 उस्फार
	मथुरा	" "	2 नवीपुर		मथुरा	" "	2 नवीपुर
28	मथुरा	ऊंचागांव	1 ऊंचागांव	20	मथुरा	ऊंचागांव	1 ऊंचागांव
29	मथुरा	हकीमपुर	1 हकीमपुर	21	मथुरा	हकीमपुर	1 हकीमपुर
30	मथुरा	न0 माना	1 न0 माना	22	मथुरा	न0 माना	1 न0 माना
31	मथुरा	शाहपुर जाटान	1 शाहपुर जाटान	23	मथुरा	शाहपुर जाटान	1 शाहपुर जाटान
	मथुरा	" "	2 बसई		मथुरा	" "	2 बसई
32	मथुरा	शाहपुर चैनपुर	1 शाहपुर चैनपुर	24	मथुरा	शाहपुर चैनपुर	1 शाहपुर चैनपुर
	मथुरा	" "	2 बेरूका		मथुरा	" "	2 बेरूका

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
33	मथुरा	जुनसुटी	1 जुनसुटी	25	मथुरा	जुनसुटी	1 जुनसुटी
	मथुरा	" "	2 न० गजू		मथुरा	" "	2 न० गजू
34	मथुरा	भैंसा	1 भैंसा	26	मथुरा	भैंसा	1 भैंसा
35	मथुरा	उमरी	1 उमरी	27	मथुरा	उमरी	1 उमरी
36	मथुरा	रामपुर	1 रामपुर	28	मथुरा	रामपुर	1 रामपुर
37	मथुरा	नगरी	1 नगरी	29	मथुरा	नगरी	1 नगरी
38	मथुरा	समसपुर	1 समसपुर	30	मथुरा	समसपुर	1 समसपुर
39	मथुरा	राल	1 राल	31	मथुरा	राल	1 राल
40	मथुरा	भदाल इच्छा	1 भदाल इच्छा	32	मथुरा	भदाल इच्छा	1 भदाल इच्छा
41	मथुरा	भदाल सुन्दर	1 भदाल सुन्दर	33	मथुरा	भदाल सुन्दर	1 भदाल सुन्दर
	मथुरा	" "	2 न० नेता		मथुरा	" "	2 न० नेता
42	मथुरा	जिखिनगांव	1 जिखिनगांव	34	मथुरा	जिखिनगांव	1 जिखिनगांव
43	मथुरा	तोष	1 तोष	35	मथुरा	तोष	1 तोष
44	मथुरा	बढ़ौता	1 बढ़ौता	36	मथुरा	बढ़ौता	1 बढ़ौता
45	मथुरा	कोन्हई	1 कोन्हई	37	मथुरा	कोन्हई	1 कोन्हई
46	मथुरा	मघेरा	1 मघेरा	38	मथुरा	मघेरा	1 मघेरा
47	मथुरा	बसौती	1 बसौती	39	मथुरा	बसौती	1 बसौती
48	मथुरा	जुल्हैदी	1 जुल्हैदी	40	मथुरा	जुल्हैदी	1 जुल्हैदी
49	मथुरा	मुखराई	1 मुखराई	41	मथुरा	मुखराई	1 मुखराई
1	गोवर्धन	अडींग	1 अडींग	1	गोवर्धन	अडींग	1 अडींग
2	गोवर्धन	पाली ब्राह्मणान	1 पाली ब्राह्मणान	2	गोवर्धन	पाली ब्राह्मणान	1 पाली ब्राह्मणान
	गोवर्धन	" "	2 जमुनाबता		गोवर्धन	" "	2 जमुनाबता
3	गोवर्धन	भवनपुरा	1 भवनपुरा	3	गोवर्धन	भवनपुरा	1 भवनपुरा
4	गोवर्धन	माधुरी कुण्ड	1 माधुरी कुण्ड	4	गोवर्धन	माधुरी कुण्ड	1 माधुरी कुण्ड
5	गोवर्धन	सौसा	1 सौसा	5	गोवर्धन	सौसा	1 सौसा
6	गोवर्धन	नीमगांव	1 नीमगांव	6	गोवर्धन	नीमगांव	1 नीमगांव
7	गोवर्धन	कुन्जेरा	1 कुन्जेरा	7	गोवर्धन	कुन्जेरा	1 कुन्जेरा
8	गोवर्धन	पाडल	1 पाडल	8	गोवर्धन	पाडल	1 पाडल
9	गोवर्धन	भगोसा	1 भगोसा	9	गोवर्धन	भगोसा	1 भगोसा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
10	गोवर्धन	सकरवा	1 सकरवा	10	गोवर्धन	सकरवा	1 सकरवा
11	गोवर्धन	सकीतरा	1 सकीतरा		गोवर्धन		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2844/नौ-1-2019-105सा-2012, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत गोवर्धन में समाहित
12	गोवर्धन	राधाकुण्ड देहात	1 राधाकुण्ड देहात (अति०टा० ए०क्षे०)		गोवर्धन		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2844/नौ-1-2019-105सा-2012, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत राधाकुण्ड में समाहित
13	गोवर्धन	गांठौली	1 गांठौली	11	गोवर्धन	गांठौली	1 गांठौली
14	गोवर्धन	आन्यौर	1 आन्यौर		गोवर्धन		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2844/नौ-1-2019-105सा-2012, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत गोवर्धन में समाहित
15	गोवर्धन	जतीपुरा	1 जतीपुरा		गोवर्धन		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2844/नौ-1-2019-105सा-2012, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत गोवर्धन में समाहित
16	गोवर्धन	देवसेरस	1 देवसेरस	12	गोवर्धन	देवसेरस	1 देवसेरस
17	गोवर्धन	मलसराय	1 मलसराय	13	गोवर्धन	मलसराय	1 मलसराय
	गोवर्धन	“ ”	2 टौंड		गोवर्धन	“ ”	2 टौंड
18	गोवर्धन	मडौरा	1 मडौरा	14	गोवर्धन	मडौरा	1 मडौरा
19	गोवर्धन	बछगांव	1 बछगांव	15	गोवर्धन	बछगांव	1 बछगांव
20	गोवर्धन	पैठा	1 पैठा	16	गोवर्धन	पैठा	1 पैठा
21	गोवर्धन	कौथरा	1 कौथरा	17	गोवर्धन	कौथरा	1 कौथरा
22	गोवर्धन	सौख देहात	1 सौख देहात (अ०टा०ए० क्षेत्र)	18	गोवर्धन	सौख देहात	1 सौख देहात (अ०टा०ए० क्षेत्र)
23	गोवर्धन	महमदपुर	1 महमदपुर	19	गोवर्धन	महमदपुर	1 महमदपुर
	गोवर्धन	“ ”	2 गोवर्धन ब्राह्मणान		गोवर्धन		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2844/नौ-1-2019-105सा-2012, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत गोवर्धन में समाहित

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
	गोवर्धन	“ ”	3 गोवर्धन गौरवा		गोवर्धन		उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2844/नौ-1-2019-105सा-2012, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत गोवर्धन में समाहित
24	गोवर्धन	महरौली	1 महरौली	20	गोवर्धन	महरौली	1 महरौली
25	गोवर्धन	जानू	1 जानू	21	गोवर्धन	जानू	1 जानू
26	गोवर्धन	पलसौं	1 पलसौं	22	गोवर्धन	पलसौं	1 पलसौं
27	गोवर्धन	सींह	1 सींह	23	गोवर्धन	सींह	1 सींह
28	गोवर्धन	मुडसेरस	1 मुडसेरस	24	गोवर्धन	मुडसेरस	1 मुडसेरस
29	गोवर्धन	दौलतपुर मथुरा	1 दौलतपुर मथुरा	25	गोवर्धन	दौलतपुर मथुरा	1 दौलतपुर मथुरा
30	गोवर्धन	मल्हू	1 मल्हू	26	गोवर्धन	मल्हू	1 मल्हू
31	गोवर्धन	अहमल	1 अहमल	27	गोवर्धन	अहमल	1 अहमल
32	गोवर्धन	वोरपा	1 वोरपा	28	गोवर्धन	वोरपा	1 वोरपा
	गोवर्धन	“ ”	2 न० छिगा		गोवर्धन	“ ”	2 न० छिगा
33	गोवर्धन	नैनू पट्टी	1 नैनू पट्टी	29	गोवर्धन	नैनू पट्टी	1 नैनू पट्टी
34	गोवर्धन	लोरिया पट्टी	1 लोरिया पट्टी	30	गोवर्धन	लोरिया पट्टी	1 लोरिया पट्टी
35	गोवर्धन	सींगा पट्टी	1 सींगा पट्टी	31	गोवर्धन	सींगा पट्टी	1 सींगा पट्टी
36	गोवर्धन	सोन	1 सोन	32	गोवर्धन	सोन	1 सोन
37	गोवर्धन	लालपुर	1 लालपुर	33	गोवर्धन	लालपुर	1 लालपुर
	गोवर्धन	“ ”	2 चक सांवत		गोवर्धन	“ ”	2 चक सांवत
	गोवर्धन	“ ”	3 नगला सांवत		गोवर्धन	“ ”	3 नगला सांवत
38	गोवर्धन	पाली डूंगरा	1 पाली डूंगरा	34	गोवर्धन	पाली डूंगरा	1 पाली डूंगरा
	गोवर्धन	“ ”	2 भदार		गोवर्धन	“ ”	2 भदार
39	गोवर्धन	फोंडर	1 फोंडर	35	गोवर्धन	फोंडर	1 फोंडर
40	गोवर्धन	मगोर्गा	1 मगोर्गा	36	गोवर्धन	मगोर्गा	1 मगोर्गा
	गोवर्धन	“ ”	2 ढकपुरा		गोवर्धन	“ ”	2 ढकपुरा
41	गोवर्धन	कोसी खुर्द	1 कोसी खुर्द	37	गोवर्धन	कोसी खुर्द	1 कोसी खुर्द
42	गोवर्धन	सेंहा	1 सेंहा	38	गोवर्धन	सेंहा	1 सेंहा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
43	गोवर्धन	रसूलपुर	1 रसूलपुर	39	गोवर्धन	रसूलपुर	1 रसूलपुर
	गोवर्धन	" "	2 छपरा		गोवर्धन	" "	2 छपरा
	गोवर्धन	" "	3 गोपालपुर		गोवर्धन	" "	3 गोपालपुर
44	गोवर्धन	पुरा	1 पुरा	40	गोवर्धन	पुरा	1 पुरा
	गोवर्धन	" "	2 सौनौठ जनूबी		गोवर्धन	" "	2 सौनौठ जनूबी
	गोवर्धन	" "	3 सौनौठ सुमाली		गोवर्धन	" "	3 सौनौठ सुमाली

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/74/2014-4/94(मथुरा)-2014, दिनांक 12 जनवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।